

उत्तराखण्ड शासन
पंचायती राज अनुभाग-1,
संख्या- / E-57053 / 2024,
देहरादून : दिनांक मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञाप

सचिव, वित्त विभाग(वि0आ0निदे0), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-195372, दिनांक-03 मार्च, 2024 में की गयी अपेक्षा के क्रम में 16वें वित्त आयोग को समयबद्ध एवं तत्परता के साथ सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के स्तर पर निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामित किया जाता है:-

नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर	ई-मेल
श्री डी0एम0एस0 राणा	संयुक्त सचिव	9927699776	jsec.uk@gmail.com

(आलोक कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख निजी सचिव, सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
1. संयुक्त सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, वित्त विभाग(वि0आ0निदे0), उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, देहरादून।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।